

## PRODUCT NAME

### Pull Down - Tah Dolů (7.38)

## PRODUCT CODE

### MB 7.38



एमबी 7.38 "लीवर पुल-डाउन" पीठ, दरेपेज़ियस, रॉमबॉइड, बाइसेप्स और कंधों की व्यापक मांसपेशियों को विकसित करता है। "छाती कसने" के दौरान, बड़ी पेटोरल मांसपेशियां भी विकसित होती हैं।  
प्रत्येक तरफ अधिकतम भार... 77.5 किलोग्राम में नमिनलखित वजन होते हैं ... 14 x 10 किलो; 6 x 2.5 किलो

**व्यायाम:** नीचे की ओर खींचो

## क्षेत्रों

### सामान्य जानकारी

**ब्रांड** MB Barbell  
**प्रयोग** व्यायाम, स्ट्रेंथनिंग, मजबूत बनाना

### तकनीकी निर्देश

**आयाम** 2.5m x 2.5m x 0m  
**ड्राप ऊंचाई (मीटर में एचआईसी)** 0.00m  
**रंग योजना** आरएएल पैलेट  
**स्टेशनों की संख्या** 1  
**सरफेसिंग**

ए) छड़िकाव जस्ता आधार + कोमैक्सटि 120μ बी) हॉट-डिपि जस्ता + कोमैक्सटि 120μ

### प्रयुक्त सामग्री

	व्यास	चौड़ाई
समानांतर पट्टियाँ	51mm	4,5mm
बज़ बार	33,7mm	3,5 - 4,5mm
स्तंभ (वर्ग योजना)	100mm	4,0mm

### अनुशंसित प्रभाव क्षेत्र

**इष्टतम आकार** 2m x 3m  
**नींव** कंक्रीट स्लैब + ईपीडीएम या कंक्रीट फुटिंग + थोक सामग्री

Enuma Elis sro ले सधै EN 16:630 सुरक्षा मानकानुसार स्थापनाको सफ़िरसि गर्दछ

### वतिरण और स्थापना

**डिलीवरी का समय** 5 - 8 सप्ताह  
**मानदंडों** EN16:630